



**CLASS: II**

**SESSION NO: 11**

**SUBJECT : (HINDI)**

**CHAPTER NUMBER: पाठ- 15**

**TOPIC : सब्ज़ीवाला**

**SUB TOPIC: सृजनात्मक कार्य - फल तथा सब्जियों की विशेषता**

**CHANGING YOUR TOMORROW**

# शिक्षण क उद्देश्य ा

- विद्यार्थी में भाषाई कुशलता का विकास करना।
- पाठ संबंधित ज्ञान प्रदान करना।



सब्जीवाला

## आओ गिनती सीखें

१ एक

६ छह

२ दो

७ सात

३ तीन

८ आठ

४ चार

९ नौ

५ पाँच

१० दस



११	ग्यारह	१६	सोलह
१२	बारह	१७	सत्रह
१३	तेरह	१८	अठारह
१४	चौदह	१९	उन्नीस
१५	पन्द्रह	२०	बीस



## फल तथा सब्जियों की विशेषता-

- लौकी** - यह हरे रंग की होती है इसका रस सेहत के लिए अच्छा होता है।
- पालक** - पालक आँख, त्वचा तथा बालों के लिए फायदेमंद है।
- अनार** - अनार लाल रंग का फल है इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है।
- आँवला** - इसमें विटामिन सी होती है। जिससे खाने से शरीर स्वस्थ रहता है



# सीखने के प्रतिफल

सब्जियों की विशेषता की जानकारी प्राप्त करेंगे

**THANKING YOU**  
**ODM EDUCATIONAL GROUP**